

## प्रेस नोट दिनांक-07-07-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री सिद्धनाथराय थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही महिला आरक्षी दीपा यादव, आरक्षी करन कुमार द्वारा मु0अ0सं0 32/21 धारा 363 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1. जवाहर लाल पुत्र सत्यनारायण केवट निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2. फूलन देवी पुत्री देवीदयाल कोल निवासी छितैनी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा हमराही आरक्षी रोहित यादव, आरक्षी रोहित सिंह द्वारा मु0अ0सं0 173/21 धारा 363/376 भादवि0 व 06 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त राजेश द्विवेदी पुत्र मेघा निवासी बनकट नहर के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।।

(ग). उ0नि0 श्री कन्हैया लाल पाण्डे थाना राजापुर तथा उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय, आरक्षी राहुल द्वारा मु0अ0सं0 02/18 धारा 467/468/471/419/420/465 भादवि के वांछित अभियुक्त देवराज पुत्र रामदेव निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### (2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4421 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 06/07/2021 को समय 17:07 बजे इवेंट संख्या 11104 द्वारा घटनास्थल रैपुरा सरदार पटेल स्कूल के बगल से थाना रैपुरा से कॉलर विजय कुमार ( मोबाइल नंबर 8160132776) एक आदमी को करंट लग गया है हालत गंभीर है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि लाइन मैन राम मनोज s/o राजकिशोर ने ब्रेक डाउन लेकर लाइट कटवा कर खम्भे में चढ़ कर लाइट सही कर रहा था अचानक लाइट चालू हो गई जिससे लाइन मैन को करंट लगा और लाइन मैन खंभे से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। कॉलर और घायल व्यक्ति रोड पर आ गये है। और अपने साधन से अस्पताल जा रहे है। प्राइवेट अस्पताल में घायल का उपचार करा रहे है और लाइट कटवा दी है। पीआरवी कर्मियों ने पास के ही प्राइवेट अस्पताल में घायल को प्राथमिक उपचार दिलाया गया और घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से chc अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया गया है। घायल के घरवालों को भी सूचना दी गई है।

#### पीआरवी स्टाफ

कमांडर - c मयंक कुमार

पायलट - hg गंगादीन

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक-07.07.2021 को श्री सुशील चन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा महुलिया, लौरी, सुजानगंज के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 07.07.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा एसबीआई बैंक आर्यावर्त बैंक शिवपुर तिराहा बाजार में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन व ग्राम किथना में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक व ग्राम डोडामाफी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम कलवलिया में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, चक्रेही चौराहा, बस स्टैण्ड में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।